

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 2001 (फाल्गुन 12, 1922)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 2001 (PHALGUNA 12, 1922)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2001

सं० आर० एस०/2(ii)/2001/12-का०—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप सचिव श्री तपन चटर्जी को 12 फरवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में निदेशक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2 राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव श्री पी० पी० के० रामाचार्युलु को 12 फरवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में उप सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए भी नियुक्त करने की कृपा की है।

3 उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं० 3025/88 के अंतिम निष्पत्ति के समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेश के अधीन होगी।

प्र० सं० गहराय, उप सचिव

सं० आर० एस०/2(ii)/2001/13-का०—राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/अधिकासी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में अधिकारी श्री उमेश सिंह माडिया को श्री जगमोहन सुन्दरियाल, अवर सचिव की प्रतिनियुक्ति से हुई रिक्ति के स्थान पर इस सचिवालय में 12 फरवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से अगामी आदेशों तक अवर सचिव/वित्त और लेखा अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्री गोमराज सिंह को, जिन्हें श्री जगमोहन सुन्दरियाल, अवर सचिव की प्रतिनियुक्ति से हुई रिक्ति के स्थान पर 4 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं० आर० एस०/2(ii)/2001/1-का० द्वारा अवर सचिव/वित्त और लेखा अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, अब 12 फरवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से अगामी आदेशों तक उस संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं० 3025/88 के अन्तिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेश के अधधीन होगी।

प्र० सं० गुहुराय, उप सचिव

सं० आर० एम०/2(ii)/2001/14-का०—राज्य सभा के समापन के बरिष्ठ अधिशासी सहायक श्रीमती सुभाश्री पाणिग्रही को श्रीमती गायत्री कांत, अधिशासी अधिकारी के अवकाश पर जाने से हुई रिक्ति के स्थान पर इस सचिवालय में 12 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक विधायी/अधिशासी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करने की कृपा की है।

2. श्री शशि भूषण को, जिन्हें श्रीमती गायत्री कांत अधिशासी अधिकारी के अवकाश पर जाने से हुई रिक्ति के स्थान पर 4 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं० आर० एम०/2(ii)/2001/2-का० द्वारा विधायी/अधिशासी/समिति/न्यायाचार अधिकारी के संवर्ग में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, अब 12 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उस संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं० 3025/88 के अन्तिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेश के अधधीन होगी।

प्र० सं० गुहुराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जनवरी 2001

सं० पी० एफ० 2105(3)/ए० एन०-1/जी० एन०-4526/2001—डा० रूप नारायण दास, सहायक निदेशक (लाडिम) को दिनांक 5 जनवरी 2001 (अपराह्न) से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् जल संसाधन मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 फरवरी, 2001

सं० पी० एफ० 3381(3)/ए० एन०-1/जी० एन०-4537/2001—अध्यक्ष महोदय, इस सचिवालय की दिनांक 19 नवम्बर 1998 की अधिसूचना सं० जी० एन०-4236/98 के क्रम में इस सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत श्री हरनाभ सिंह, आई० ए० एस० (महाराष्ट्र : 73) की सेवाएं 17 नवम्बर, 2000 के उपरांत 17 मई, 2001 तक छ माह की अवधि के लिए महर्ष बढ़ाते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2001

सं० ए०-19011/4/2001-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री आर० आर० गाह, भा० प्र० सं० (उत्तर प्रदेश : 67) को 14 फरवरी, 2001 के अपराह्न से छ माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव, पुर्ननिर्माण प्रबंधन एवं मानीटरी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० के० गावा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2001

सं० ए-19013/1/2001-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री बी० एन० तिवारी, भा० सं० सं० (83) को 8 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में उप सचिव नियुक्त करने हैं।

ए० मोहनन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2001

सं० ए-12025/08/99-प्रशा०-1 :—राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित बरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तथा तदर्थ उप-सलाहकार (ऊर्जा नीति) श्री नरेन्द्र पाल की योजना आयोग में 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में उप सलाहकार (ऊर्जा नीति) के पद पर दिनांक 29-01-2001 (पूर्वाह्न) से नियमित पदोन्नति आधार पर दिनांक 02-05-2002 तक की अवधि के लिए अथवा उक्त पद के नियमित पदधारी के विदेश सेवा से योजना आयोग में प्रत्यावर्तित होने तक, अथवा अगले आदेशों तक जो भी सबसे पहले हो, नियुक्त करने हैं।

के० के० छावडा, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 फरवरी 2001

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा०-1—राष्ट्रपति एतद्द्वारा श्री तरुण जोशी, कर्मचारी कोड सं० 4206 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मंत्रालय, में वैज्ञानिक - "सी" के पद में न्यायपत्र दिनांक 31-1-2001 (अपराह्न) में स्वीकार करने हैं और उन्हें उगी दिन से कार्यरत किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2091

गृह मंत्रालय

सं० 4(226)/83-का०-1-इलेक्ट्रानिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर नियति संवर्धन परिपद (ईएससी), नई दिल्ली में 14300-400-18300/-रुपए के वेतनमान में प्रमुख (वित्त तथा लेखा) के पद पर स्थाई विलयन के आधार पर पदभार ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उप वित्तीय सलाहकार, श्री एम० के० शर्मा का सेवा ले दिया गया त्याग-पत्र दिनांक 31-01-2001 के पूर्वार्द्ध से स्वीकार कर लिया है।

प्रवीण कुमार दत्त, संयुक्त निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 फरवरी 2001

सं०-181/3/2000-का प्रश्नाः- उप निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग सचिवालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थापनापन्न रूप में कार्य कर रहे निम्नलिखित सहायकों को 9 फरवरी, 2001 से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

- 1 श्री चन्द्र पाल (अ०जा०)
- 2 श्री एम० के० गभरवाल
- 3 श्री हरि सिंह बैमोया
- 4 श्री कृष्ण मुरारी
- 5 श्रीमती प्रभा शर्मा
- 6 श्री वी० सी० वर्मा
- 7 श्री थोमस वर्गीस
- 8 श्री आर० के० राय
- 9 श्री सुरेण चन्द (अ०जा०)

आदेश से

ललित मोहन, अवर सचिव

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी 2001

सं० के० 13025/3/2000 - यू०एस०-2-भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री नायक यशवन्त हनुमंतप्प को अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र नाथ, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 फरवरी 2001

सं० 14013/6/2000-यूटीएस-अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री के० सी० थंगा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी 2001 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14013/6/2000-यूटीएस-अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री रिमलुईआ अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2001 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14013/6/2000-यूटीएस-अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1965 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री एफ० पहनुता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2001 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14013/6/2000-यूटीएस-अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री एन० राजाशेखर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2001 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14013/6/2000-यूटीएस-अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री ए० एम० अवस्थी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी, 2001 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2001

सं० पी० एफ०/जी०/120-प्रशा०-I (ग)-राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रेड-IV अधिकारी श्री ओम प्रकाश कपूर को दिनांक 30-6-2001 तक तदर्थ आधार पर अथवा पद के नियमित रूप में भरे जाने तक जो भी पहले हो, सहायक निदेशक (रा० भा०) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रेड-III (6500-10500 रु०) के पद पर गृह मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

टी० जे० बैनर्जी, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं० 14034/81/98-रा०भा० (प्रशि०)—केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद (वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200) पर श्री एन० वी० नैनवाल, हिन्दी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर दिनांक 24-1-2001 (अपराह्न) से अधिक से अधिक तीन वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए, राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी० एम० रंगा, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2001

सं० ए-12026/9/96-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, संचार मंत्रालय के सहायक श्री आर० विनायक की 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में इस विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि में और आगे छः मास के लिए अर्थात् 10-8-2001 तक वृद्धि करते हैं।

राजेश्वर दयाल, अवसर सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2001

सं० ए-32013/1/2001-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री आर० सी० पाण्डेय को दिनांक 12 फरवरी 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग में उ० सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश्वर दयाल, अवसर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2001

सं० 13017/21/2000-अ०भा० से० (I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मणीपुर, त्रिपुरा एवं बिहार सरकारों की सहमति से एतद्-द्वारा श्री एस० के० राकेश, भा० प्र० से० (आर आर : 90) का बिहार सरकार के अधीन तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करती है। यह प्रतिनियुक्ति श्री एस० के० राकेश द्वारा बिहार सरकार में कार्यभार सम्भालने से लागू होगी।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय
(पी ए I अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2000

सं० क्यू/पी ए-1/53/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा० वि० से०) के ग्रेड-III (अवस्थाने) के कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी

गई तारीखों के पूर्वाह्न से सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	प्रोन्नति की तिथि
1.	श्री एस० पी० मान	भारत का राज-दूतावास, मिओल में मंत्री	1-12-2000
2.	श्री अजीत कुमार	भारत का प्रधान कौंसलावास में प्रधान कौंसल, डरबन	1-12-2000

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नति होने पर, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पहले से अवस्थाने आधार पर नियुक्त अधिकारियों ने, अपने नाम के सामने दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रुचिरा काम्बोज, उप-सचिव
(एफ एम पी एवं काडर)

दिनांक 7 दिसम्बर 2000

सं० क्यू/पी ए-1/54/2000—राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के (भा० वि० से०) के ग्रेड-I (अवस्थाने) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न से सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद नियुक्त	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री एस० जे० सिंह	भारत का राजदूता-वास, मस्कट	1-11-2000
2.	श्री एस० पी० एस० मेनन	भारत का राजदूता-वास, त्रासीयिगा में राजदूत	1-11-2000

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नति होने पर, भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I में पहले से अवस्थाने आधार पर कार्यरत अधिकारियों ने अपने नाम के सामने दर्शायी गई तारीख के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रुचिरा काम्बोज, उप सचिव
(एफ० ए० सी० पी० एवं काडर)

(पी० ए० II अनुभाग)

दिनांक 8 जनवरी 2001

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2001

सं० 2/पी०ए० II/2001-सब लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गयी सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1999 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, निम्नलिखित 8 (आठ) उम्मीदवारों को उनके नाम के सामने लिखी तिथियों से विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा (आई० एफ० एस०) परीक्षार्थी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र०सं० उम्मीदवार का नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती	
1. विनोद के० जैकब	04-09-2000 (एफ एन)
2. सुश्री तमसा बोडेन खरपा	04-09-2000 (एफ एन)
3. सुश्री योजना अस्थाना	04-09-2000 (एफ एन)
4. ग्राम बी	04-09-2000 (एफ एन)
5. एक्विनो विमल	04-09-2000 (एफ एन)
6. मनोज कुमार मोहापात्रा	01-09-2000 (एफ एन)
7. सुश्री गंगारामा मंगटे	01-09-2000 (एफ एन)
8. सुश्री पारकर प्रतिभा महादेव	01-01-2001 (एफ एन)

2 अपनी नियुक्ति के पश्चात् उद्युक्त आठ अधिकारियों ने अपने नाम के आगे उल्लिखित तिथियों से भारतीय विदेश सेवा परीक्षार्थी (2000) का पदभार ग्रहण कर लिया।

सचिव कामोज, उप सचिव (एफ एम पी और संवर्ग)

(पी ए-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2000

सं० 1/पी०ए० 1/42/2000-राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी को 1 अगस्त, 2000 पूर्वाह्न से इस सेवा की ग्रेड-IV में स्थानापन्न नियुक्ति करते हैं :-

क्र० सं० अधिकारी का नाम वर्तमान पद

1. श्री के० जे० फ्रांसिस प्रथम सचिव भारत का प्रधान कोंसबावास, मेदान

2 भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-IV में नियुक्ति के पश्चात् अधिकारी ने 1-8-2000 को पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का पदभार त्याग दिया और उसी दिन पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा, ग्रेड-IV का पदभार ग्रहण कर लिया।

संजीव रंजन, जवर सचिव (एफ एम पी और जी ए)

सं० ए-12011/18/98-प्रशा०-2-कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28-09-98 के का० शा० सं० 21/48/97-सी एस-1 के अनुसरण में राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री पी० ग्यामीनाथन को व्यक्तिगत उपाय के रूप में अस्थायी तौर पर उनके अनुभाग अधिकारी के पद का उन्नत करके इसी विभाग में 10000-325-15200/- रु० के वेतनमान में दिनांक 24-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति, केन्द्रीय प्रशासनिक व्यापारिकरण मुख्य खण्डपीठ, नई दिल्ली में लम्बित श्री अमृत लाल और अन्य द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एम० ए० सं० 640/1998 तथा श्री सी० डी० भाटिया और अन्य द्वारा दाखिल आवेदन पत्र ओ० ए० सं० 911/97 के निर्णय तथा वर्ष 1984 से 1986 के अवर सचिव की चयनसूची की समीक्षा के निर्णय के अधीन होगी।

3. उपरोक्त उन्नत पद पर का गई नियुक्ति से उक्त अधिकारी को अवर सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति अथवा ग्रेड में वरिष्ठता के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं होगा।

4. उच्चतर ग्रेड में वास्तविक रिक्ति के लिए पदोन्नति मिलने पर उपरोक्त अधिकारी द्वारा उन्नत पद को खाली कर देने, सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र दे देने आदि की स्थिति में वह उन्नत पद स्वतः ही अपने मूल स्तर पर आ जाएगा।

आई० सी० कामोज, जवर सचिव

सं० ए/19012/4/2001-प्रशा०-2-राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ सहायक अधिकारी श्री ज्ञान भूषण को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 5 फरवरी 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक उप निदेशक नियुक्त करते हैं।

आई० सी० कामोज, जवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2001

सं० ए० 12011/5/2000-प्रशासन-1-इस विभाग के दिनांक 17 जुलाई 2000 की अधिसूचना सं० ए० 12011/5/2000-प्रशासन 1 के अनुक्रम में, तथा राज भाषा विभाग की दिनांक 25-01-2001 के कार्यालय जावन सं० 5/11/94-रा० भा० (सेवा) के अनुसरण में, सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर कार्यरत, श्री एम० सी० मिश्रा की तदर्थ नियुक्ति का दिनांक 30-06-2001 की अवधि तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जाता है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारी को सहायक निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में पदोन्नति के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एम० सोन्दर राजन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2001

स० ए० 12026/1/2001-प्रशा०-1-मसूह "क" और "ख" (सम्मिलित) सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1999 उत्तीर्ण कर लेने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, व्यय विभाग में वैयक्तिक सहायक श्री जी० सूर्य नारायण को केन्द्रीय मन्त्रिवालय आशुनिधिक सेवा संवर्ग वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 02-02-2001 के पूर्वार्द्ध से आगे आदेशों तक के लिए निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2000

स० ए०-12023/11/99-व्य०-1-राष्ट्रपति, श्री सजय महोत्रा, भा०प्र० स० (राज० . 90) को 30 नवम्बर, 2000 की पूर्वाह्न में लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, श्रीमती वसुधरा राजे का निजी सचिव नियुक्त करने हैं।

श्री सजय महोत्रा की नियुक्ति मन्त्रियों के निजी सचिवों के लिए अनुमेय उनकी तीन वर्षों की अवधि की शेष अवधि के लिए होगी अर्थात् 3-1-2003 तक, अथवा जब तक वह मन्त्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो।

प्रमिता राघवेन्द्रन, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2001

स० ए-12011/10/93-स्थापना-राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बरिष्ठ अन्वेषक के रूप में श्री पंकज बिट्ठल की तदर्थ नियुक्ति को 30-6-2001 तक या अगले आदेशों तक, इन से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

रेणुका कुमार, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2000

स० 1(1)99 स्थापना-इस्पात मंत्रालय की दिनांक 8 फरवरी 1999, 16 जुलाई, 1999 और 19-7-2000 की मसमं व्यय अधिसूचनाओं के क्रम में राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय से

वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (के०सचि०आशु०सेवा) के रूप में श्री एस०आर० धनकानी की तदर्थ नियुक्ति को अवर मदर्भित दिनांक 8-2-99 की अधिसूचना के पैरा 2 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर 1-1-2001 से 30-6-2001 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं।

एम० पी० राव, अवर सचिव

दिनांक 01 जनवरी 2001

स० 11(2)/2000-स्थापना-राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के के०स०मे० संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की उर्मी सेवा और शर्तों में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति को प्रत्येक के नाम के आगे दर्शाई गई अर्थात् अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं —

- 1 श्री आर० एम० राव 1-7-2000 से 31-12-2000
- 2 श्री एम०के० सिंह 1-7-2000 से 07-09-2000
- 3 श्री एम०पी० सिन्हा 1-7-2000 से 31-12-2000

एम० पी० राव, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जनवरी 2001

फ० नं० पी०एफ०/31/81-स्था०-वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय की सामान्य केन्द्रीय सेवाओं के समूह "ख" अधिकारी श्री एम० के० राय, विकास अधिकारी, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31-1-2001 को अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हो गये हैं।

2 उन्हें नई दिल्ली, जो उनके मुख्यालय (कलकत्ता) से बाहर है, में इसी तारीख को, सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डी० सुधाकरन, अवर सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 फरवरी 2001

स० सचिव/11/2/2001-स्था०-राष्ट्रपति, राष्ट्रीय भू-मीलित अनुप्रधान पस्थान, हैदराबाद के निदेशक डॉ० हर्ष गुप्ता को 9 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से 26000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में महासागर विकास विभाग का सचिव, महर्ष नियुक्त करते हैं।

2 इसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं० 22/3/2001-ई० पी० (एम०एम० I) दिनांक 8 फरवरी 2001 के आश्रय में जारी किया जाता है।

डा० नारायणन, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 फरवरी 2001

सं० ए-19011(4)/99-भा०व०मे०-I-राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के 1990 बैच की अधिकारी सुश्री संयुक्ता पटनायक को 30 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक वन महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करने है।

जी० पी० हालदार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 15 जनवरी 2001

सं० ए-12011/1/2000-प्रशा०-1 (ए)-राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक "एफ" को नभनीय परव योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति होने पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान में उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से तथा अगले आदेशों तक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "जी" के पद पर सहर्ष नियुक्त करने है :-

क्र० सं०	नाम	जिस तिथि से ग्रेड "जी" में पदोन्नति प्रभावी होगी
1.	डा० ए० के० बोहरा (एन सी एम आर डब्ल्यू एफ)	01-07-1999
2.	श्री एम० बन्धोपाध्याय	01-07-2000
3.	श्री विमल कुमार	01-07-2000
4.	श्री सी० जे० जीनी	01-07-2000
5.	श्री एम० विस्वास	01-07-2000
6.	डा० (श्रीमती) जेट० एन० वेणम (एन सी एम आर डब्ल्यू एफ)	01-07-2000
7.	डा० एल० एम० राठौर (एन सी एम आर डब्ल्यू एफ)	01-07-2000

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2001

सं० ए-12023/2/98-प्रशा०-1 (ए)-इस विभाग का दिनांक 04-07-2000 को समरपद अभियान के अन्तर्गत में राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आणुविक सेवा शर्ग के निम्नलिखित शर्ग ग्रेड "सी"

आणुविक सेवा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 6500-2000-10500 रूपए के वेतनमान में निजी सचिव के पद पर तत्पर नियुक्ति की प्रवृत्ति को 28-07-2001 के दिनांक निम्नलिखित चयन शर्ग के अभिलेखा द्वारा कार्यभार ग्रहण करते तब, एम० में आ सी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते है --

(i) श्री एम० एम० मलिक

(ii) श्रीमती आर० श्रीनिवासन

(iii) श्री कृष्ण गोपाल

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2001

सं० ए०-11013/3/99-प्रशा०-1 (ए)-राष्ट्रपति, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी के अपर निजी सचिव डा० कैलाश एन० उत्तम का त्यागपत्र 11 जनवरी, 2001 (अपराह्न) से स्वीकार करने है।

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2001

सं० ए०-19018/19/89-प्रशा०-1 (ए)-राष्ट्रपति, वैज्ञानिक 'सी' श्री पी० ए० राय चौधरी का त्यागपत्र सहर्ष स्वीकार करते है और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 1 फरवरी, 1997 से कार्यमुक्त करते है।

विजय कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2001

सं० ए०-39012/17/95-सी० एच० एम०-1-राष्ट्रपति, डा० चित्रा बी० का त्यागपत्र स्वीकार करते है। जिसने 24-7-1995 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया समझा जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 फरवरी 2001

सं० ए०-12025/23/98-सी० एच० एम०-1-राष्ट्रपति, मध्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० सजय कुमार को 10-9-1999 के पूर्वाह्न में आशामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रूपए के वेतनमान में अग्राह्य आधार पर नियुक्त करते है। डा० सजय कुमार को असम राष्ट्रकर्म, जिसमें के अधीन निम्नलिखित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-12025/225/98-सी० एच० एम०-1-राष्ट्रपति, सप्तम लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० संजीव कुमार को 3-4-1999 के पूर्वाह्ल से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी में पद 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० संजीव कुमार को असम, राष्ट्रफुल्स, शिलांग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-12025/227/99-सी० एच० एम०-1-राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० चन्द्र प्रकाश चौधरी को 5-4-1999 के पूर्वाह्ल से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ० चन्द्र प्रकाश चौधरी को असम राष्ट्रफुल्स, शिलांग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2001

शुद्धि-पत्र

सं० ए०-12025/152/97-सी० एच० एम०-1-इस संज्ञावध द्वारा जारी दिनांक 22-8-2000 की समसंख्यक राजपत्र अधिसूचना में डा० एम० उमाशंकर की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति की तिथि 29-12-97 (पूर्वाह्ल) के स्थान पर 11-12-97 (अपराह्ल) पढ़ी जाए।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2001

सं० 8-1/86-भूमि/एस० डब्ल्यू० सी०-3-राष्ट्रपति अखिल भारतीय मुदा एवं भूमि सर्वेक्षण संगठन के कम्प्यूटर प्रोग्रामर श्री विजय्वर दयाल को 31 जनवरी 2001 की अपराह्ल से सेवा निवृत्ति की आयु होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

राजीव कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2001

सं० 12026/4/99-सी०-1-कृषि तथा सहकारिता विभाग की विस्तारीकृत गणना समिति (समूह 'ख', राजपत्रित) की सिफारिश पर सहायक सचिव (आ. एम०) के. जे. डेवा, अनुभाग अधिकारी, कृषि एवं पशु (कृषि तथा सहकारिता विभाग) को विभाग का कार्य प्रभार में पद 6,500-10,500 रु० के वेतनमान में कनिष्ठ निदेशक (कार्य अध्यापक)

के पद पर 17-1-2001 के पूर्वाह्ल से 5 वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने हैं।

के० रवीन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2001

सं० 32011/1/99-आ०-5-संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, श्री मनमोहन सिंह, उपायुक्त (अ. वादन) (12,000-375-16,500 रुपये) कृषि तथा सहकारिता विभाग प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रभाग को उसी विभाग में पदोन्नति के आधार पर अपर आयुक्त (एस० डब्ल्यू० सी०), (14,300-400-18,300 रु०) के पद पर 11 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्ल से आगामी आदेशों तक के लिए नियुक्त करने हैं।

के० रवीन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2001

सं० 4-1/2000-विस्तार-विभागीय प्रोन्नति समिति समूह 'क' की सिफारिशों पर राष्ट्रपति, विस्तार निदेशालय में स्थायी निदेशक (कार्य सूचना) श्री वाई० आर० मीना को दिनांक 28 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्ल से आगामी आदेशों तक उसी निदेशालय में स्थानापन्न प्रोन्नति के आधार पर 12000-16500 रुपये के वेतनमान में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित में निदेशक (कार्य सूचना एकक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री वाई० आर० मीना की नियुक्ति अनन्तितम आधार पर होगी तथा केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, प्रमुख बेंच, नई दिल्ली में दायर ओ० ए० सं० 1426/2000 के फैसले के अधीन होगी।

यह अधिसूचना इस विभाग की दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 की समसंख्यक पूर्व अधिसूचना के अधीकरण में जारी की जाती है।

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, अवर सचिव

पशु पालन एवं डेयरी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2001

सं० ए-38013/6/2000-प्रशासन-1-राष्ट्रपति, डा० डॉ० कृष्णन, उप आयुक्त (एन. एच.), पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय को नियुक्ति की अनुमति प्राप्त करने के लिए दिनांक 31 जनवरी, 2001 के अपराह्ल से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2001

सं० ए-32013/1/98-प्रशा० I---संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, श्री बी० बी० नायर, प्रदर्शन अधिकारी को 10 जुलाई, 2000 की पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से 8,000-275 13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक तकनीकी सलाहकार (वर्ग 'क', राजपत्रित, जी० सी० एस० संवर्ग) के पद पर पदोन्नत करने हैं।

आर० शंकरन, अवर सचिव

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली 110001, दिनांक 2 फरवरी 2001

सं० 1-2/98-प्रशा०-I---राष्ट्रपति, श्री आर० राम नाथन, "आई ए एण्ड ए एस" को 31 जनवरी, 2001 (अपराह्न) से सवस्थ (वित्त), दूर संचार आयोग व दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का पदेन सचिव नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

सं० 1-2/98-प्रशा०-I---राष्ट्रपति, श्री जे० रामानुजम आई टी एस, को 1 फरवरी, 2001 (पूर्वाह्न) से सदस्य (सेवाएं), दूरसंचार आयोग व दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का पदेन सचिव नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2001

सं० ई० आर० बी०-1/2000/3/6—श्री सुनील कुमार शर्मा, आशुलिपिक ग्रेड "सी", रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा को दिनांक 15-1-2001 से रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के पद पर (वेतनमान रु० 6,500-10,500) पदोन्नत किया जाता है।

डी० पी० त्रिपाठी, सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय
(स्थापना-II अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2001

सं० ए०-38012/3/2000-स्था०-1---अधिवर्षिता की आयु होने पर श्री ए० गोपालन, जं जल भूतल परिवहन मंत्रालय में विकास सलाहकार (पत्तन) के रूप में कार्य कर रहे

थे, 31-12-2000 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

एम० के० रॉय, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(स्थापना-II अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2001

सं० ए-32014/1/2000-स्था०-II---राष्ट्रपति श्री एन० डी० दुआ, मुख्य ब्राफ्ट्समैन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 6500-10500/- रु० के उसी वेतनमान में 18-12-2000 से नियमित आधार पर तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं।

यू०पी० रतूरी, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 05 फरवरी 2001

सं० 1/1/2000-बे० प्र०/46—राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के निजी सचिव श्री रविन्द्र कुमार पराशर की काबेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में प्रमुख निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर रु० 10,000-325-15200/- के वेतनमान में दिनांक 16-10-2000 (पूर्वाह्न) से एक साल की अवधि या न्यायाधिकरण के जीवनकाल तक, जो भी पहले हो, के लिए सहर्ष नियुक्ति करते हैं। उनकी नियुक्ति की पदे एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 5-1-94 के कार्यालय शापन संख्या 2/29/91-स्थापना (बे-II) के अनुसार नियमित की जाएंगी।

राधे श्याम, अवर सचिव

सं० 1/4/2000-बे० प्र०/40—केन्द्र सरकार, उच्चतम न्यायालय के सहायक श्री जयन्ती प्रसाद शर्मा की काबेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में कोर्ट मास्टर (नैर-आशुलिपिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर रु० 6500-200-10500/- के वेतनमान में दिनांक 4-1-2001 (पूर्वाह्न) से एक साल की अवधि या न्यायाधिकरण के जीवनकाल तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्ति करती है। उनकी नियुक्ति की पदे एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 5-1-94 के कार्यालय शापन संख्या 2/29/91-स्थापना (बे-II) के अनुसार नियमित की जाएंगी।

बी०पी० पाण्डेय, उपायुक्त (बे० प्र०)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 2001

सं०-1/2001, फाईल सं०-2/4/2000-प्रशा०—राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय में सहायक निदेशक, श्री रूपा नारायण राय को दिनांक 05-01-2001 (अपराह्न) से 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में सह सभाम्यु आधार (कोन्टिनेन्स) अथवा जब तक मंत्री (जब संसाधन) चाहे तब तक मागनीय जग संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठो) का विशेष कार्याधिकार नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 25 जनवरी 2001

सं०-2/2001, फाईल सं०-20/65/95-प्रशा०—श्री सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव (स्व स्थान) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-01-2001 के आदेश सं० 31/25/2000-ई ओ (एम०एम० I) तथा उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसरण में भीष्यधिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यभार मुक्त किए जाने पर दिनांक 23-1-2001 को पूर्वाह्न से जल संसाधन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-1) के पद का कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें मंत्रालय (खास) में अवर सचिव (भूजल) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. इस मंत्रालय में श्री सोहन सिंह सैनी का कार्यकाल दिनांक 23-01-2001 (पूर्वाह्न) से 7 वर्ष अथवा उनकी अधिवृत्ति की तारीख, जो भी पहले हो, तक होगा। कार्यकाल की अवधि 7 वर्ष होते हुए भी वे अगले आवेदों, जो कि उनके कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से पहले या बाद में हो सकते हैं, तक इस पद पर कार्य करते रहेंगे।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2001

सं०-13/5/99-ल०सि०—भारत के राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश अधिनियम, 1953 (1953 का तीसरा) की धारा 66 की उपधारा (4) तथा भारत सरकार के तत्कालीन सिचाई एवं विद्युत मंत्रालय की समय-समय पर अध्यामंशोधित 10 मार्च, 1955 की अधिसूचना सं० डी० डब्ल्यू० VI-4(9) के अनुच्छेद-1 के अनुसरण में श्री वी० के० ज्योति, मुख्य इंजीनियर (कृष्णा-गोदावरी बेसिन), केन्द्रीय जल आयोग, हैदराबाद

को तत्काल प्रभाव से आगामी आवेदों तक, उनके अपने कार्य-भार के अतिरिक्त, तुंगभद्रा बीर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

अ० गेखर, आयुक्त (परियोजना)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 फरवरी 2001

सं० 6/1/2001-प्रशा० 2—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29-1-2001 के का० ज्ञा० सं० 15/1/2001-ई ओ (एसएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री पवन चोपड़ा, भा० प्र०से० (राजस्थान : 67) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में दिनांक 1-2-2001 के पूर्वाह्न में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

पी० एम० राजू, उप सचिव

सं० 6/1/2001-प्रशा० 2—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29-1-2001 के का० ज्ञा० सं० 15/1/2001-ई ओ (एसएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री अनिल बैजल भा० प्र०से० (ए जी एम यू टी : 69) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में दिनांक 5-2-2001 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

पी० एम० राजू, उप सचिव

श्रम मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2001

सं० डीजीईटी-ए-24/37/84-प्रशा०-II—केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48 व 48-क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय में अवर निदेशक रोजगार कार्यालय के पद पर श्री डेविड मल्ली द्वारा दिए गए 31-01-2001 (अपराह्न) से स्वीकृत मंत्रालय के दिनांक 2-1-2001 का नोटिस स्वीकार करते हैं और तदनुसार श्री डेविड मल्ली दिनांक 31-1-2001 (अपराह्न) से भारत सरकार की सेवा में सेवा मुक्त किए जाते हैं।

राजपाल, निदेशक

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 14th February 2001

No. RS/2(ii)/2001/12-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Upin Chatterjee, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Director in that Secretariat with effect from the forenoon of the 12th February, 2001, until further orders.

2. The Chairman, Rajya Sabha has also been pleased to appoint Shri P. P. K. Ramacharvulu, Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Deputy Secy. in that Secretariat with effect from the forenoon of the 12th February 2001, until further orders.

3. The above appointments would be subject to the order of Delhi High Court at the final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/2(ii)/2001/13-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Umed Singh Mandia, an officer in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the cadre of Under Secretary/Pay & Accounts Officer in that Secretariat against the deputation vacancy of Shri Jagmohan Sundriyal, Under Secretary with effect from the forenoon of the 12th February, 2001, until further orders.

2. Shri Mom Raj Singh, who was appointed to officiate in the cadre of Under Secretary/Pay & Account Officer against the deputation vacancy of Shri Jagmohan Sundriyal, Under Secretary vide Notification No. RS/2(ii)/2001/I-Perl. dated 4th January, 2001 has now appointed in that cadre on a regular basis with effect from the forenoon of the 12th February 2001, until further orders.

3. The above appointments would be subject to the order of Delhi High Court at the final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

No. RS/2(ii)/2001/14-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Subhashree Panigrahi, Senior Executive Assistant to officiate in the cadre of Legislative/Executive/Committee/Protocol officer in the Rajya Sabha Secretariat with effect from the forenoon of the 12th February, 2001 against the leave vacancy of Smt. Gayatri Kanth, Executive Officer, until further orders.

2. Shri Shashi Bhushan who was appointed to officiate in the cadre of Legislative/Executive Committee/Protocol officer against the leave vacancy of Smt. Gayatri Kanth, Executive Officer vide Notification No. RS/2(ii)/2000/2-Perl. dated 4th January, 2001 has now been appointed in that cadre on a regular basis with effect from the forenoon of the 12th February, 2001 until further orders.

3. The above appointments would be subject to the order of Delhi High Court at the final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 9th January 2001

No. PF.2105(3)/AN-I GN-4526/2001.—Dr. Rupa Narayan Das, Assistant Director (FARRDIS) is relieved of his duties in this Secretariat with effect from 5th January, 2001 (A/N).

and thereafter his services are placed on deputation basis at the disposal of Ministry of Water Resources Government of India, New Delhi for his appointment as Officer on Special Duty to the Minister of Water Resources.

JOGINDER SINGH, Jr. Secy.

The 13th February 2001

No. PF.3381(3)/AN-I GN-4537/2001.—In continuation of this Secretariat notification No. GN-4236/98 dated 19th November 1998, the Speaker is pleased to extend the services of Shri Hanam Singh, IAS (MH : 73) as Joint Secy. in this Secretariat on deputation basis for a period of six months beyond 17th November, 2000 upto 17th May 2001.

JOGINDER SINGH, Jr. Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 15th February 2001

No. A-19011/4/2001-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri R. R. Shah, IAS (UP : 67) as Secretary, Reconstruction Management and Monitoring in the Cabinet Secretariat with effect from the afternoon of 14th February 2001 for a period of six months or until further orders whichever is earlier.

V. K. GAUBA, Dy. Secy.

New Delhi, the 12th February 2001

No. A-19013/1/2001-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri B. N. Tiwari, ISS (83) as Deputy Secretary in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 8th January, 2001 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. MOHANAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 31st January 2001

No. A-12025/08/99-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Narendra Pal, a regular Senior Research Officer and ad-hoc Deputy Adviser (Energy Policy), Planning Commission as Deputy Adviser (Energy Policy) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- on regular promotion basis wef 29-01-2001 (F/N) for the period upto 2-5-2002 or till the regular incumbent of the post reverts from Foreign Service or until further orders which ever is the earliest.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY**(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)**

New Delhi-110003, the 6th February 2001

No. A-39013/1/2000-Adm. I.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. Tarun Joshi, Emp. Code No. 4206, from the post of Scientist (C) National Informatics Centre Headquarters, New Delhi, with effect from 31-1-2001 (afternoon) and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

New Delhi-110003, the 31st January 2001

No. 4 (226)/83-Pers I—The President is pleased to accept the resignation from service tendered by Shri M. K. Sharma, Deputy Financial Adviser in the Ministry of Information Technology with effect from the forenoon of 31-01-2001 to join Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC), New Delhi as Head (F&A) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- on permanent absorption basis

P K DATTA, Jr Director

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi 110001, the 12th February 2001

No. 181/3/2000/1913-P Admn—The Deputy Election Commissioner appoints following Assistants officiating as Section Officer on ad-hoc basis in the Secretariat of the Election Commission as Section Officer on regular basis w.e.f. 9th February, 2001 and until further orders —

1. Sh. Chander Pal (SC)
2. Sh. S. K. Sabharwal
3. Sh. Hari Singh Barsoya
4. Sh. Krishan Murari
5. Smt. Prabha Sharma
6. Sh. B. C. Verma
7. Sh. Thomas Verghese
8. Sh. R. K. Roy
9. Sh. Suresh Chand (SC)

By Order

ITALIT MOHAN, Under Secy

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 2nd February 2001

No. K.13025/3/2000 US II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Nayaka Yellappa Hanumanthappa, Judge of the Andhra Pradesh High Court, to be the Chief Justice of the Orissa High Court with effect from the date he assumes charge of his office

SURENDRA NATH, Addl Secy

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 9th February 2001

No. 14031/6/2000-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri K. C. Thanga, an Indian Police Service Officer of 1987 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories has retired from service in the afternoon of 31st December, 2000

K K KAIRA, Under Secy

No. 14031/6/2000-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri Ringluna, an Indian Administrative Service Officer of 1991 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories has retired from service in the afternoon of 31st January, 2001

K K KAIRA, Under Secy

No. 14031/6/2000-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri F. Pahnuna, an Indian Administrative Service Officer of 1965 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories has retired from service in the afternoon of 31st January, 2001

K K KAIRA, Under Secy

No. 14031/6/2000-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri N. Rajasekhari, an Indian Administrative Service Officer of 1983 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories has retired from service in the afternoon of 31st January, 2001

K K KAIRA Under Secy

No. 14031/6/2000 UTS—On attaining the age of superannuation, Shri A. S. Awasthi, an Indian Administrative Service Officer of 1985 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories has retired from service in the afternoon of 31st January, 2001

K K KAIRA Under Secy

New Delhi, the 13th February 2001

No. PF/G/120-Ad I(C)—The President is pleased to appoint Shri Om Prakash Kapoor (Grade IV Officer of Central Secretariat Official Language Service) as Assistant Director (Grade-III of CSO L.S.) (Rs. 6500-10,500) on adhoc basis in the Ministry of Home Affairs for a further period upto 30-6-2001 or till this post is filled up on regular basis whichever is earlier

T J BANERJEE, Under Secy

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 20th February 2001

No. 14034/81/98-OL(Trg.)—The President is pleased to appoint Shri N. B. Nainwal, Hindi Officer Government of India Press, Faridabad, as Administrative Officer (Scale of pay Rs. 10,000-325-15,200) in the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs with effect from 24-1-2001 (Afternoon) for a period not exceeding three years, or till further orders whichever is earlier on transfer on deputation basis.

P. S. RANGA, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL P.G. & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th February 2001

No. A 12026/9/96-Ad.I.—The President is pleased to extend the term of deputation of Shri R. Vinayan, Assistant of Ministry of Communication to the post of Junior Analyst in this Department in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 for a further period of six months, i.e. upto 10-8-2001

RAJESHWAR DAYAL Under Secy

The 15th February 2001

No. A 32013/1/2001 Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Pandey, CSS, as Deputy Secretary in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 12th February, 2001 until further orders

RAJESHWAR DAYAL, Under Secy

New Delhi, the 12th February 2001

No. 13017/21/2000 MS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur, Tripura and Bihar, the Central Govt. hereby accords approval for deputation of Sh. S. K. Rakesh IAS (RR-90) borne on the IAS cadre of Manipur Tripura to the IAS Cadre of Bihar for a period of three years with effect from the date Shri S. K. Rakesh reports for duty in the Govt. of Bihar

K K SHARMA Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(PA I SECTION)

New Delhi, the 5th December 2000

No. Q/PAI/53/2000.—The President is pleased to appoint the following Officers presently in the Grade III (In-Situ) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of the dates given against their names :—

S. No., Name of the Officer, Present Position & Date of Promotion

1. Shri S. P. Mann, Minister, EOI, Seoul—01-12-2000
2. Shri Ajit Kumar, CG, CGI, Durban—01-12-2000

2. On promotion to Grade III of IFS, the Officers who are already in Grade III of IFS on in-situ basis, assumed charge of the post in Grade III of the IFS, with effect from forenoon of the dates given against their names on regular basis.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 7th December 2000

No. Q/PAI/54/2000.—The President is pleased to appoint the following Officers presently in the Grade I (In-Situ) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the service with effect from the forenoon of the dates given against their names :—

S. No., Name of the Officer, Present Position & Date of Promotion

1. Shri S. J. Singh, Ambassador EOI, Muscat—01-11-2000
2. Shri M. P. M. Menon, Ambassador, EOI, Brasilia—01-11-2000

2. On promotion to Grade I of IFS, the Officers who are already in Grade I of IFS on in-situ basis, assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the dates given against their names on regular basis.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

(PA-II SECTION)

The 8th January 2001

No. 2/PA-II/2001.—On the basis of the results of the Civil Services (Main) Examination, 1999 held by the Union Public Service Commission, New Delhi, the President is pleased to appoint the following 08 (Eight) candidates as Indian Foreign Service (IFS) Probationers in the Ministry of External Affairs, New Delhi, with effect from the date shown against each :—

S. No., Name of the Candidates & Date of Appointment S/Shri

1. Vinod K. Jacob—04-09-2000 (F/N)
2. Ms. Namgya Choden Khampa—04-09-2000 (F/N)
3. Ms. Yojna Asthana—04-09-2000 (F/N)
4. Shyam B.—04-09-2000 (F/N)
5. Acquino Vimal—04-09-2000 (F/N)
6. Manoj Kumar Mohapatra—04-09-2000 (F/N)
7. Ms. Gloria Gangte—04-09-2000 (F/N)
8. Ms. Parkar Prathibha Mahadeo—01-01-2001 (F/N)

2. On their appointment the abovementioned eight officers assumed charge as Indian Foreign Service Probationers (2000), with effect from the date shown against each officer.

RUCHIRA KAMBOJ, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

(PA-I SECTION)

New Delhi, the 25th October 2000

No. Q/PAI/42/2000.—The President is pleased to appoint the following officers presently in the JAG of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 1st August, 2000.

S. No., Name of the Officer & Present Position

1. Shri K. J. Francis, First Secretary, CGI—Medan

2. On promotion to Grade IV of IFS, the officer relinquished charge of the post in JAG of IFS on the forenoon of 01-08-2000 and assumed charge of the post in Grade IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

SANJIV RANJAN, Under Secy. (FSP & GA)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th February 2001

No. A. 12011/18/98-Admn.II.—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 21/48/97-CS. I dated 28-09-98, the President is pleased to appoint Shri P. Swaminathan, Section Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs as Under Secretary purely on ad-hoc basis in the same Department in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 by temporarily upgrading his post of Section Officer as a measure personal to him with effect from the forenoon of 24-01-2001 and until further orders.

2. The above appointment will be subject to the outcome of the application MA. No. 640/1998 filed by Amrit Lal and others, OA No. 911/97 filed by Shri C. D. Bhatia and others pending in the CAT Principal Bench, New Delhi and also the outcome of the review of the Select List of Under Secretary for the year 1984 to 1986.

3. The appointment against the upgraded post will not entitle the officer to any claim for regular appointment as Under Secretary or Seniority in the grade.

4. The upgraded post will automatically revert to its original level as and when the incumbent of such post vacate it on his promotion against actual vacancy in the higher grade or on his retirement, resignation etc.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

No. A. 19012/4/2001-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Gyan Bhushan, a Senior Time Scale Officer of IES as Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. the forenoon of 5th February, 2001 and until further orders.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

New Delhi, the 12th February 2001

No. A. 12011/5/2000-Ad.I.—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/5/2000-Ad.I dated 17th July, 2000 and in pursuance of Department of Official Languages Office Memorandum No. 5/11/94-OL (Service) dated 25-01-2001, the ad-hoc appointment of Shri M. C. Mishra, in the post of Assistant Director (O.L.) is continued for the period up to 30-06-2001 or till the post is filled up on a regular basis, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on the aforesaid officer any claim for promotion in the grade of Assistant Director (O.L.).

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 15th February 2001

No. A-12026/1/2001-Ad.I.—Consequent upon his qualifying the Grade "A & B" (Merged) Limited Departmental Competitive Exam., 1999, the President is pleased to appoint Shri G. Suryanarayana (Roll No. 1173), Personal Assistant of Department of Expenditure, to the post of Private Secretary in CSSS Cadre of the Ministry of Finance, Department of Expenditure, with effect from 2-2-2001 (F/N) and until further orders.

K. D. UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 29th December 2000

No. A-12023/11/99-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Malhotra, IAS (Raj : 90), as Private Secretary to the Minister of State (IC) for Small Scale Industries and Agro and Rural Industries (Smt. Vasundhara Raje) in the Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries, with effect from the forenoon of 30th November, 2000.

The appointment of Sh. Sanjay Malhotra would be for the balance period of his three years' tenure as admissible to Private Secretaries to Ministers, i.e., upto 3-1-2003, or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event takes place the earliest.

PRAMIL RAGHAVENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd January 2001

No. A-12011/10/93-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Sh. Pankaj Vithal as Sr. Analyst (WS) in the Ministry of Petroleum & Natural Gas upto 30-6-2001 or until further orders, whichever is earlier.

RENUKA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 27th December 2000

No. 1(1)99-Estt.—In continuation of Ministry of Steel's Notification of even number dated 8th Feb. 99 and 16th July 99 & 19-7-2000, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Sh. S. R. Dhankam as Senior Principal Private Secretary (CSSS) in the Ministry of Steel for a further period of six months w.e.f. 1-1-2001 to 30-6-2001 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier on the same terms and conditions as mentioned in para 2 of the Notification dt. 8-2-99 referred to above.

M. P. RAO, Under Secy

The 1st January 2001

No. 11(2), 2000-Estt.—The President is pleased to extend the period of appointment of the following permanent Assistants in the CSS cadre of the Ministry of Steel as Section Officer on ad-hoc basis in the same service and cadre for the period mentioned against each or till regular, Section Officers become available whichever is earlier.

1. Shri R. S. Rao—1-7-2000 to 31-12-2000
2. Shri M. K. Singh—1-7-2000 to 07-09-2000
3. Shri M. P. Sinha—1-7-2000 to 31-12-2000.

M. P. RAO, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

(DIRECTORATE OF VANASPATI, VEGETABLE OILS AND FAIS)

New Delhi-110003, the 30th January 2001

No. PF/34/81-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri S. K. Roy, Development Officer a Group 'B'

Officer of General Central Services of the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, will stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31-01-2001.

2. He is allowed to retire from service at New Delhi away from his Hqtr. (Calcutta) with effect from the same date.

D. SUDHAKARAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 12th February 2001

No. DOD-11/2/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Harsh K. Gupta, Director National Geophysical Research Institute, Hyderabad as Secretary Department of Ocean Development in the scale of pay of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 9th February, 2001.

2. This issues in pursuance of Secretariat of Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel and Training Order No. 22/3/2001-EO(SM T) dated 8th February 2001.

K. NARAYANAN, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 2nd February 2001

No. A.19011/4/99-IFS.I.—The President is pleased to appoint Ms. Sanjukta Patnaik, an officer belonging to the 1990 batch of Madhya Pradesh cadre of the Indian Forest Service, to the post of Assistant Inspector General of Forests in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 30th January, 2001 until further orders.

G. P. HALDAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 15th January 2001

No. A.12011/1/2000-Admn.(A).—The President is pleased to appoint the following Scientists 'F' as Scientists 'G' on their in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 in the Department of Science & Technology with effect from the dates shown against their names and until further orders :—

S. No., Names & Effective date of Promotion to Grade 'G'

1. Dr. A. K. Bohra (NCMRWF)—01-07-1999
2. Sh. M. Bandyopadhyay—01-07-2000
3. Sh. Vimal Kumar—01-07-2000
4. Sh. C. J. Johny—01-07-2000
5. Sh. S. Biswas—01-07-2000
6. Dr. (Mrs.) Z. N. Begum (NCMRWF)—01-07-2000
7. Dr. I. S. Rathore (NCMRWF)—01-07-2000

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 1st February 2001

No. A. 12023/2/98-Admn.(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 04-07-2000, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of undermentioned permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the Department of Science and Technology upto 28-02-2001 or till regular select list officers join, whichever is earlier :—

- (i) Shri M. M. Malik
- (ii) Smt. R. Srinivasan
- (iii) Shri Krishan Gopal

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 2nd February 2001

No. A. 11013/3/99-Admn.I(A).—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Kailash N. Uttam, Addl. Private Secretary to Hon'ble Minister for Science & Technology with effect from the 11th January, 2001 (A/N).

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 5th February 2001

No. A. 19018/19/89-Admn.I(A).—The President is pleased to accept the resignation of Sh. P. A. Rai Chowdhary Scientist 'C' and relieve him from Department of Science & Technology with effect from the 4th February, 1997.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 13th February 2001

No. A. 39012/17/95-CHS.I.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Chitra V. who is deemed to have relinquished the post of Medical Officer of Central Health Service under Central Government Health Scheme, Delhi, with effect from 24-7-1995.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 14th February 2001

No. A. 12025/223/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjay Kumar to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 10-9-1999 until further orders. Dr. Sanjay Kumar is posted as Medical Officer under Assam Rifles, Shillong.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/225/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjiv Kumar to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 3-5-1999 until further orders. Dr. Sanjiv Kumar is posted as Medical Officer under Assam Rifles, Shillong.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/227/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Chandra Prakash Choudhary to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 5-4-1999 until further orders. Dr. Chandra Prakash Choudhary is posted as Medical Officer under Assam Rifles, Shillong.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 16th February 2001

CORRIGENDUM

No. A. 12025/152/97-CHS.I.—In the Gazette Notification of even number dated 22-8-2000 issued by this Ministry in respect of Dr. S. Uma Shankar notifying his appointment in Central Health Service, his date of appointment may be read as 11-12-97 (afternoon) instead of 29-12-97 (forenoon).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 30th January 2001

No. 8-1/86-Lands/SWC.III.—The President is pleased to permit Shri Vishwambhar Dayal, Computer Programmer, All India Soil & Land Use Survey to retire from Government service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st January, 2001.

R. K. AGARWAL, Under Secy.

New Delhi, the 7th February 2001

No. 12026/4/96-Estt.I.—On the recommendations of the Departmental Selection Committee (Group 'B' Gazetted) of the Department of Agriculture & Cooperation, the competent authority hereby appoints Shri M. K. Chadha, Section Officer in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) as Junior Analyst (Work Study) in the pay scale of Rs. 6,500—10,500 in the Work Study Unit of the Department, on deputation basis for a period of 5 years w.c.f. the forenoon of 17-1-2001 until further orders.

K. RAVINDRAN, Under Secy.

The 8th February 2001

No. 32011/1/99-E.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Shamsheer Singh, Deputy Commissioner (Sedimentation) (Rs. 12,000-375-16,500) in the Natural Resources Management Division of the Department of Agriculture & Cooperation as Additional Commissioner (SWC), (Rs. 14,300-400-18,300) on promotion basis in the same Department with effect from the forenoon of 11th January, 2001, until further order.

K. RAVINDRAN, Under Secy.

New Delhi, the February 2001

No. F. No. 4-1/2000-Extn.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Group "A", the President is pleased to appoint Shri Y. R. Meena permanent Joint Director (Farm Information) in the Directorate of Extension, as Director (Farm Information Unit), General Central Service Group "A" Gazetted in the pay scale of Rs. 12000—16500, on officiating promotion basis in the same Directorate, with effect from the forenoon of 28th November, 2000, until further orders.

The appointment of Shri Y. R. Meena will be on provisional basis and will be subject to the outcome of O.A. No. 1426/2000 filed in the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

This supersedes this Department's earlier Notification of even number dated 19th December, 2000.

JAYALAKSHMI SRINIVASAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 31st January 2001

No. A-38013/6/2000-A.I.—The President is pleased to permit Dr. D. Krishnan, Deputy Commissioner (I.H) in the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture to retire from Government Service on his attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January, 2001

R. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 9th February 2001

No. A-32013/1/98-NA.—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Shri V. V. Nair, Demonstration Officer to the post of Assistant Technical Adviser (Group 'A', Gazetted, GCS cadre) in the scale of pay of Rupees 8000-275-13500/- in officiating capacity with effect from the forenoon of the 10th July, 2000.

R. SHANKARAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 2nd February 2001

No. 12/98-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri R. Ramanathan, IA&AS, as Member (Finance), Telecom Commission and ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Telecommunications with effect from the afternoon of 31st January,

SURENDRA SINGH, Jt. Secy.

No. 1-2/98-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri J. Ramanujam, ITS, as Member (Services), Telecom Commission and ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Telecommunications with effect from the forenoon of 1st February, 2001.

SURENDRA SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 7th February 2001

No. 1RB-1/2000/3/6.—Shri Sunil Kumar Sharma, Stenographer Grade 'C' of Railway Board Secretariat Stenographers Service has been promoted as Private Secretary of Railway Board Secretariat Stenographers Service (scale : Rs. 6500—10500) with effect from 15-01-2001.

D. P. TRIPATHI, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

(ESTT. I SECTION)

New Delhi, the 13th February 2001

No. A 38012/3/2000-E. I.—On attaining the age of superannuation, Shri S. Gopalan, who had been working as Development Adviser (Ports) in the Ministry of Surface Transport has retired from Govt. service w.e.f. 31-12-2000 (A/N).

M. K. ROY, Under Secy.

MINISTRY OF ROADS TRANSPORT & HIGHWAYS

(ESTT. II SECTION)

New Delhi, the 2nd January 2001

No. A-32014/1/2000-E. II.—The President is pleased to appoint Shri N.D. Dua, Chief D/Man to the post of Technical Assistant on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the same scale of pay i.e. Rs. 6500—10500/- w.e.f. 18-12-2000.

U. P. RATURI, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 5th February 2001

No. 1/1/2000-BM.—The President is pleased to appoint Shri Ravinder Kumar Parashar, Private Secretary in the Ministry of Water Resources to the post of Principal Private Secretary in the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT), New Delhi in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- on deputation basis for a period of one year or till the life of the Tribunal whichever is earlier w.e.f. the forenoon of 16-10-2000. His terms and conditions of appointment will be regulated in accordance with Deptt. of Personnel & Training O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay II) dated 5-1-94 as amended from time to time.

RADHEY SHYAM, Under Secy.

No. 1/4/2000-BM.—The Central Government hereby appoint Sh. Jayanti Prasad Sharma, Assistant in Supreme Court of India as Court Master (Non-Shorthand) in Cauvery Water Disputes Tribunal, New Delhi in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on deputation basis for a period of one year or till the life of Tribunal whichever is earlier w.e.f. 4-01-2001 (F/N). His terms and conditions of appointment will be regulated in accordance with Deptt. of Personnel & Training O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay II) dated 5-1-94 as amended from time to time.

B. P. PANDEY, Dy. Commissioner (BM)

New Delhi, the 15th January 2001

No. 1/2001, F. No. 2/4/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Rupa Narayan Das, Assistant Director, Lok Sabha Secretariat, as Officer on Special Duty to the Hon'ble Minister for Water Resources (Shri Arjun Charan Sethi) in the scale of Rs. 10000—15200/- with effect from 5-1-2001 (A/N) on co-terminus basis or for so long as desired by Minister (WR).

N. K. GUPTA, Under Secy.

The 25th January 2001

No. 2/2001, File No. 20/65/95-Admn.—Shri Sohan Singh Saini, Under Secretary (in-situ) after having been relieved by the Department of Secondary Education & Higher Education, has assumed the charge of the post of Under Secretary (Grade-I of the CSS) on ad-hoc basis in the Ministry of Water Resources with effect from the forenoon of 23-1-2001, in pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 31/25/2000-EO (MM.I), dated 17-1-2001 and the conditions specified therein. He is posted as Under Secretary (Ground Water) in the Ministry (Proper).

2. The tenure of Shri Sohan Singh Saini in this Ministry shall be 7 years with effect from 23-1-2001 (F/N) or till the date of his superannuation, whichever is earlier. Notwithstanding the tenure of 7 years, he will continue on the post until further orders which may be earlier or later than the date of expiry of his tenure.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 12th February 2001

No. 13-5/99-MI/171.—In pursuance of Sub-Section 4 of Section 66 of the Andhra Pradesh State Act, 1953 (30 of 1953) and paragraph 1 of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Irrigation and Power No. DW. VI-4 (9) dated the 10th March, 1955 as amended from time to time, the President of India is pleased to appoint Shri V. K. Jyothi, Chief Engineer, (Krishna and Godavari Basins), Central Water Commission, Hyderabad as Chairman, Tungabhadra Board, in addition to his own duties with immediate effect until further orders.

A. SHEKHAR, Commissioner (Projects)

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 1st February 2001

No. 6/1/2001-Admn. II.—In pursuance of DoPT's O. M. No. 13/1/2001-EO (SM. I) dated 29-1-2001, the President is pleased to appoint Sh. Pawan Chopra, IAS (RJ : 67) as Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting on central deputation with effect from the forenoon of 1-2-2001.

P. M. RAJU, Dy. Secy.

The 5th February 2001

No. 6/1/2001-Admn. II.—In pursuance of DoPT's O. M. No. 13/1/2001-EO (SM. I) dated 29-1-2001, the President is pleased to appoint Shri Anil Bajjal, IAS (AGMUT : 69) as Additional Secretary, in the scale of pay of Rs. 22400-525-24500, in the Ministry of Information & Broadcasting

on central deputation with effect from the forenoon of 5-2-2001.

P. M. RAJU, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING)

New Delhi, the 6th February 2001

No. DGE&T-A-24/37/84-Adm. II (Vol. III).—In exercise of powers conferred under Rule 48 & 48-A of the Central Civil Services (Pension) Rule, 1972, the President is pleased to accept the notice dated 02/01/2001 for voluntary Retirement with effect from 31/01/2001 (A.N.) given by Shri David Mally, Additional Director of Employment Exchanges under the Directorate General of Employment and Training and accordingly, Shri David Mally, Additional Director of Employment Exchanges stands retired from the service of the Govt. of India with effect from 31/01/2001 (A.N.).

RAJ PAI, Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एक प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001

